

ऑल यूनियन्स एंड एसोसिएशन्स ऑफ बीएसएनएल (AUAB)

No: UA/2019/80

14.03.2019

परिपत्र (Circular)

प्रति,
सभी महासचिव,
AUAB,

कॉमरेड,

विगत 3 दिनों, यानी 12, 13 और 14 मार्च 2019 को AUAB द्वारा निरंतर मीटिंग्स की गई है। BSNL कर्मियों को वेतन भुगतान न होने और साथ ही BSNL के रिवाइवल से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता के साथ मीटिंग्स में चर्चा की गई। BSNLEU, NFTE, SNEA, AIBSNLEA, AIGETOA, BSNL MS, ATM और BSNL OA के महासचिव/ सीएचक्यू पदाधिकारी मीटिंग्स में उपस्थित रहे। इन सभी मीटिंग्स की अध्यक्षता कॉम चंद्रेश्वर सिंह, चेयरमैन, AUAB ने की। आज की मीटिंग में कॉम पी अभिमन्यु, कन्वेनर ने विगत 2 दिनों में सम्पन्न मीटिंग्स में हुई चर्चा का संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। इसके बाद विस्तार से पुनः चर्चाएं हुईं। यह निर्णय लिया गया कि सरकार द्वारा की जा रही BSNL विरोधी कोशिशों का विरोध करने, विशेष रूप से DoT के खिलाफ, जिसकी वजह से BSNL में वर्तमान संकट निर्मित हुआ है, एक सशक्त आंदोलन करना जरूरी है। विस्तार से चर्चा पश्चात सर्वानुमति से निम्न निर्णय लिए गए।

- (1) सरकार और DoT द्वारा की जा रही BSNL विरोधी कार्यवाही का विरोध करने के लिए 05.04.2019 को जबरदस्त रूप से "मार्च टू संचार भवन" आयोजित किया जाए। रैली को संबोधित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों के लीडर्स को आमंत्रित किया जाए।
- (2) रैली और BSNL के वर्तमान आर्थिक संकट पर प्रकाश डालते हुए विस्तृत परिपत्र कर्मचारियों हेतु जारी किया जाए।
- (3) सभी राजनीतिक दलों से BSNL के रिवाइवल हेतु समर्थन /सहयोग प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जाए।
- (4) पीएमओ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को BSNL के रिवाइवल हेतु, उनके द्वारा हस्तक्षेप के अनुरोध के साथ, पत्र लिखा जाए।
- (5) राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के लीडर्स से BSNL के रिवाइवल हेतु समर्थन /सहयोग प्राप्त करने के लिए सर्किल स्तर पर AUAB के लीडर्स द्वारा संपर्क किया जाए।
- (6) AUAB के मांग पत्र में शामिल मुद्दों पर चर्चा के लिए सेक्रेटरी, टेलीकॉम को मीटिंग हेतु पत्र लिखा जाए।
- (7) BSNL के रिवाइवल हेतु समर्थन /सहयोग प्राप्त करने के सभी राजनीतिक दलों के पार्लियामेंट इलेक्शन के उम्मीदवारों को जापन दिया जाए।
- (8) AUAB के सख्त विरोध के बावजूद, BSNL मैनेजमेंट मोबाइल टॉवर्स के रखरखाव का आउट सोर्सिंग करने के प्रयास में है। इस पर रोक लगाने हेतु एक और पत्र CMD BSNL को लिखने का निर्णय लिया गया।
- (9) सभी BSNL कर्मचारी अपना ट्वीटर एकाउंट शुरू करें और साथ ही "SAVE BSNL" को फॉलो करें।
- (10) AUAB की अगली मीटिंग 25.03.2019 को 14.30 बजे होगी।

धन्यवाद सहित,
भवदीय,

कॉम चंद्रेश्वर सिंह
चेयरमैन AUAB

कॉम पी अभिमन्यु,
कन्वेनर, AUAB